



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1977, माघ 27, 1898

No. 76]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1977/MAGHA 27, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1977

S.O. 170(E).—Whereas Shri R. Balakrishna Pillai, Ex-M.P., has made a representation that three members returned on the Kerala Congress ticket to the House of the People in the general election held in 1971 and one member returned to the Kerala Legislative Assembly on the Kerala Congress ticket in the general election to the Assembly held in 1970 belong to a group of which he is the President,

And whereas he has applied for recognition of the group as a State Party and allotment to it of a reserved symbol,

And whereas after due consideration, the Commission is satisfied that the Kerala Congress group led by Shri R. Balakrishna Pillai should be granted ad hoc recognition as a State Party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on the Election Commission of India by article 324 of the Constitution of India, rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961 and paragraph 18 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and all the other powers enabling it in that behalf, the Election Commission of India hereby directs that—

- (a) that the group led by the said Shri R. Balakrishna Pillai shall be recognised as a State Party on ad hoc basis in the State of Kerala with the name "Kerala Congress (Pillai Group)";

- (b) that the symbol 'Coconut tree bearing fruits' shall be reserved for the said party;
- (c) in Table 2 to the Commission's notification No. 56/77-II, dated 9th February, 1977 published as S.O. No. 152(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(11), dated 9th February, 1977, against the item "Kerala" the following entries shall be added—
- "5. Kerala Congress (Pillai Group) Coconut tree bearing fruits",

AND

- (d) in Table 3 of the said notification against the entry "9. Kerala", the entry "(3) Coconut tree bearing fruits" shall be deleted and the remaining entries (4) to (11) shall be renumbered as (3) to (10) respectively

[No. 56/77-IV]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अभिज्ञान

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1977

का० प्रा० 170 (अ).—श्री आर० बालकृष्ण पिल्लई, भूतपूर्व लोक सभा सदस्य ने यह अभ्यावेदन किया है कि सन् 1971 में हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए केरल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए तीन सदस्य और सन् 1970 में हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन में केरल विधान सभा के लिए केरल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुआ एक सदस्य, उस गुट के हैं जिसका वह अध्यक्ष हैं।

और उसने एक राष्ट्रीय दल के रूप में उन गुट को मान्यता देने और उनके लिए एक आरक्षित प्रतीक के आवंटन के लिए आवेदन किया है ;

और इस पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री आर० बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व वाले केरल कांग्रेस गुट को एक राष्ट्रीय दल के रूप में तदर्थ रूप से मान्यता दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, भारत निर्वाचन आयोग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 और नियम 10, तथा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 18 द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निदेश देता है कि —

(क) उक्त श्री बालकृष्ण पिल्लई के नेतृत्व वाले गुट को केरल राज्य में 'केरल कांग्रेस (पिल्लई ग्रुप)' नाम से एक राष्ट्रीय दल के रूप में तदर्थ आचार्य पर मान्यता दी जाएगी ;

(ख) उक्त दल के लिए 'फलों सहित नारियल का पेड़' प्रतीक आरक्षित रहेगा ;

- (ग) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii) के असाधारण प्रक में 9 फरवरी, 1977 को का०अ० 152(अ) के रूप में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना सं० 56/77-II, तारीख 9 फरवरी, 1977 की सारणी 2 में मद 'केरल' के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी ;

“5 केरल कांग्रेस (पिल्लई ग्रुप) — फलों सहित नारियल का पेड़”

- (घ) उक्त अधिसूचना की सारणी 3 में मद “9. केरल” के सामने की प्रविष्टि “(3) फलों सहित नारियल का पेड़” हटा दी जाएगी और शेष (4) से (11) तक की प्रविष्टियाँ क्रमशः (3) से (10) तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी ।

[सं० 56/77-IV]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

